



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आषाढ 1945 (श10)

(सं० पटना 562) पटना, मंगलवार, 11 जुलाई 2023

सं० 4तक०/टेक्सटाईल पॉलिसी/152/2021-1956  
उद्योग विभाग

संकल्प

10 जुलाई 2023

**विषय:-**बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति, 2022 का अवधि विस्तार 30 जून 2024 तक करने के संबंध में।

1. राज्य सरकार द्वारा राज्य में कपड़े एवं चमड़े के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति, 2022 को स्वीकृति दी गयी थी, जिसे उद्योग विभाग के ज्ञापांक 1275 दिनांक 03.06.2022 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

2. इस नीति के लागू होने के पश्चात् राज्य में कपड़े एवं चमड़े के क्षेत्र में निवेशकों को काफी प्रोत्साहन मिला है। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्यटन चरण-1 के अंतर्गत इस नीति के लागू होने के पश्चात् 59 (उन्सठ) इकाईयों को प्रथम चरण की स्वीकृति दी गयी है जिसमें प्रस्तावित निवेश की राशि 311.63 करोड़ (तीन सौ ग्यारह करोड़ तिरसठ लाख) रुपये है। इस नीति के लागू होने के पश्चात् मुजफ्फरपुर बैग क्लस्टर प्रारम्भ हुआ है, जिसमें 1100 से अधिक औद्योगिक सिलाई मशीनों पर टेक्सटाईल बैग का निर्माण किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर एवं पटना जिलों में भी 1000 से अधिक स्टीचिंग मशीनों के साथ टेक्सटाईल बैग बनाने की इकाईयाँ स्थापित हुईं। वस्त्र निर्माण (गारमेंटिंग) की इकाईयाँ भी स्थापित हुईं। मुजफ्फरपुर में आर०एस०सी०एस० इंटरनेशनल, V-2 आदि कम्पनियों द्वारा वस्त्र निर्माण इकाईयों की स्थापना की जा रही है। चमड़ा क्षेत्र में सावी लेदर कम्पनी द्वारा मधुबनी में सौ करोड़ से अधिक लागत से परियोजना लगायी जा रही है।

परन्तु अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय बाजार में अधिक उत्पादन एवं कम माँग होने के कारण वस्त्र एवं चमड़ा उद्योग की स्थिति वर्ष 2022-23 में अच्छी नहीं रही। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर माँग कम होने के कारण वस्त्र एवं चमड़ा निर्माण में लगी कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्षमता विस्तार नहीं किया गया है। अप्रैल, 2023 से बाजार में माँग में सुधार होना प्रारम्भ हो गया है। इसके कारण वस्त्र एवं चमड़े की कई कम्पनियों द्वारा राज्य में इकाईयों को लगाने पर विचार किया जा रहा है। उद्योग विभाग द्वारा इन्वेस्टर्स मीट आदि के माध्यम से अधिक-से-अधिक इकाईयों को राज्य में उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी इस प्रकार की इन्वेस्टर्स मीट में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया गया।

3. बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति, 2022 की कंडिका-12.8 के अनुसार 30 जून 2023 तक आवेदन देने वाली इकाईयों को ही इस नीति के अनुसार लाभ देने का प्रावधान है। उपरोक्त कंडिका-12.8 में दी गयी जानकारी के अनुसार इस तिथि को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि और कम्पनियाँ राज्य में वस्त्र एवं चमड़े के क्षेत्र में निवेश करते हुये इकाईयाँ लगा सकें।

4. बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति, 2022 की कंडिका-12.8 के प्रावधान को संशोधित करते हुये आवेदन की अंतिम तिथि को 30 जून 2024 किया जाता है इस प्रकार नीति की कंडिका-12.8 निम्न प्रकार संशोधित समझा जायेगा :-

- (i) **चरण 1:-** चरण-1 की मंजूरी के लिए आवेदन अधिकतम 30.06.2024 तक उद्योग विभाग (डी०ओ०आई०) के एकल खिड़की मंजूरी पोर्टल पर जमा किया जायेगा।
- (ii) **वित्तीय मंजूरी :-** वित्तीय मंजूरी के लिए आवेदन उद्योग विभाग के एकल खिड़की पोर्टल पर अधिकतम 30 जून, 2025 तक जमा किया जायेगा।

आदेश से,  
संदीप पौण्डरीक,  
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 562-571+500-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>